

MA./Msc. Home Science code No(2194)

17P/244/17

1594

Set No. – I

Question Booklet No.

(To be filled up by the candidate by **blue/black ball-point pen**)

Roll No.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Roll No.

(Write the digits in words) **2017** **109**

Serial No. of OMR Answer Sheet **109**

Day and Date

(Signature of Invigilator)

INSTRUCTIONS TO CANDIDATES

(Use only **blue/black ball-point pen** in the space above and on both sides of the OMR Answer Sheet)

1. Within 30 minutes of the issue of the Question Booklet, check the Question Booklet to ensure that it contains all the pages in correct sequence and that no page/question is missing. In case of faulty Question Booklet bring it to the notice of the Superintendent/Invigilators immediately to obtain a fresh Question Booklet.
2. Do not bring any loose paper, written or blank, inside the Examination Hall **except the Admit Card without its envelope.**
3. A separate Answer Sheet is given. **It should not be folded or mutilated. A second Answer Sheet shall not be provided. Only the Answer Sheet will be evaluated.**
4. Write your **Roll Number and Serial Number of the Answer Sheet by pen** in the space provided above.
5. **On the front page of the Answer Sheet, write by pen your Roll Number in the space provided at the top, and by darkening the circles at the bottom. Also, wherever applicable, write the Question Booklet Number and the Set Number in appropriate places.**
6. No overwriting is allowed in the entries of Roll No., Question Booklet No. and Set No. (if any) on OMR sheet and also Roll No. and OMR sheet No. on the Question Booklet.
7. Any changes in the aforesaid entries is to be verified by the invigilator, otherwise it will be taken as unfair means.
8. Each question in this Booklet is followed by four alternative answers. **For each question, you are to record the correct option on the Answer Sheet by darkening the appropriate circle in the corresponding row of the Answer Sheet, by ball-point pen as mentioned in the guidelines given on the first page of the Answer Sheet.**
9. For each question, darken only one circle on the Answer Sheet. If you darken more than one circle or darken a circle partially, the answer will be treated as incorrect.
10. **Note that the answer once filled in ink cannot be changed.** If you do not wish to attempt a question, leave all the circles in the corresponding row blank (such question will be awarded zero marks).
11. For rough work, use the inner back page of the title cover and the blank page at the end of this Booklet.
12. Deposit **only the OMR Answer Sheet** at the end of the Test.
13. You are **not permitted** to leave the Examination Hall until the end of the Test.
14. If a candidate attempts to use any form of unfair means, he/she shall be liable to such punishment as the University may determine and impose on him/her.

[उपर्युक्त निर्देश हिन्दी में अन्तिम आवरण-पृष्ठ पर दिये गये हैं।]

Total No. of Printed Pages : 32

88,

SEAL



FOR ROUGH WORK / रफ़ कार्य के लिए

• १०१

M.A/MXX Home Science Code No (494)

2017

17P/244/17(Set - I)

No. of Questions : 120

प्रश्नों की संख्या : 120

Time : 2 Hours]

समय : 2 घण्टे]

[Full Marks : 360

[पूर्णांक : 360

Note : (i) Attempt as many questions as you can. Each question carries 3 (three) marks. One mark will be deducted for each incorrect answer. Zero mark will be awarded for each unattempted question.

अधिकाधिक प्रश्नों को हल करने का प्रयत्न करें। प्रत्येक प्रश्न 3 (तीन) अंक का है। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए एक अंक काटा जायेगा। प्रत्येक अनुत्तरित प्रश्न का प्राप्तांक शून्य होगा।

(ii) If more than one alternative answers seem to be approximate to the correct answer, choose the closest one.

यदि एकाधिक वैकल्पिक उत्तर सही उत्तर के निकट प्रतीत हों, तो निकटतम सही उत्तर दें।

1. Green leafy vegetables, cabbage and lettuce are good sources of :

- | | |
|-------------------------|-----------------|
| (1) Omega 3 fatty acids | (2) Cholesterol |
| (3) Triglycerides | (4) Starch |

हरी पत्तेदार सब्जियाँ, पत्तागोभी एवं लेट्यूस अच्छे साधन हैं :

- | | |
|--|--------------------------------|
| (1) ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की प्राप्ति के | (2) कोलेस्टेरॉल की प्राप्ति के |
| (3) ट्राइग्लिसराइड्स की प्राप्ति के | (4) स्टार्च की प्राप्ति के |

2. The functional component of two important co-enzymes NAD and NADP is :

- | | |
|----------------|----------------|
| (1) Riboflavin | (2) Niacin |
| (3) Thiamin | (4) Pyridoxine |

दो महत्वपूर्ण को-एन्जाइम्स एन ए डी एवं एन ए डी पी का क्रियात्मक घटक है :

- | | |
|------------------|------------------|
| (1) राइबोफ्लेविन | (2) नियासीन |
| (3) थायमिन | (4) पायरीडॉक्सीन |

(1)

P. T. O.



3. An indicator of the body fat content is :

- (1) BMR (2) BMI
(3) MRI (4) NMR

शरीर की वसा की मात्रा का सूचक है :

- (1) बी एम आर (2) बी एम आई
(3) एम आर आई (4) एन एम आर

4. Which of the following are traditional ?

- (1) Early adopters (2) Early majority
(3) Late majority (4) Laggards

इनमें से कौन-सा पारम्परिक है ?

- (1) प्रथम अंगीकर्ता (2) प्रथम बहुसंख्य
(3) पिछला बहुसंख्य (4) पिछड़े (फिसड़ड़ी)

5. Which of the following are skeptical ?

- (1) Early majority (2) Late majority
(3) Laggards (4) Early adopters

इनमें से कौन-सा शंकाशील होता है ?

- (1) प्रथम बहुसंख्य (2) पिछला बहुसंख्य
(3) पिछड़े (फिसड़ड़ी) (4) प्रथम अंगीकर्ता

6. Jaundice is a condition due deposition of pigments in the blood are known as :

- (1) Anthoxanthin (2) Licopene
(3) Bile (4) Carotene

पीलिया एक दशा है जिसका कारण रक्त में रंजकों का जमा होना है, कहलाते हैं :

- (1) ऐन्थोजैन्थिन (2) लाइकोपीन
(3) बाइल (4) केरोटीन

7. The vitamin which is essential for absorption of calcium and phosphorus is :

- (1) Vitamin D (2) Vitamin A (3) Vitamin E (4) Vitamin K

विटामिन जो कैल्शियम और फॉस्फोरस के अवशोषण के लिये आवश्यक है, वो है :

- (1) विटामिन D (2) विटामिन A (3) विटामिन E (4) विटामिन K

(2)

8. A hereditary disease characterized by mental retardation and presence of phenyl pyruvic acid in the urine is known as :

- (1) Phenyl alaninuria (2) Phenyl tyrosinemia
(3) Phenyl ketonuria (4) Phenyl acetonuria

एक आनुवंशिक बीमारी जो मानसिक रुकावट (retardation) एवं मूत्र में फिनाइल पाइरूविक एसिड की उपस्थिति से चिह्नित होती है, जानी जाती है :

- (1) फिनाइल एलेनीन यूरिया के नाम से (2) फिनाइल टाइरोसिनेमिया के नाम से
(3) फिनाइल कीटोन्यूरिया के नाम से (4) फिनाइल एसीटोन्यूरिया के नाम से

9. Bile is a secretion of liver which stores in :

- (1) Gall bladder (2) Spleen
(3) Pancreas (4) Duodenum

बाइल यकृत का एक स्राव है जो संग्रहित होता है :

- (1) गॉल ब्लैडर में (2) स्प्लीन में
(3) पैन्क्रियास में (4) ड्यूओडिनम में

10. Wilson's disease is a disease due to :

- (1) Cobalt metabolism (2) Calcium metabolism
(3) Cadmium metabolism (4) Copper metabolism

विल्सन-डिजीज एक डिजीज है जिसका कारण है :

- (1) कोबाल्ट मेटाबॉलिज्म (2) कैल्सियम मेटाबॉलिज्म
(3) कैडमियम मेटाबॉलिज्म (4) कॉपर मेटाबॉलिज्म

11. Cushing's syndrome is the result of overproduction of :

- (1) Cortisol (2) Cholesterol
(3) Uric acid (4) Ammonia

कुशिंग सिन्ड्रोम अत्याधिक उत्पाद ~~के~~ का परिणाम है :

- (1) कोर्टिसोल के (2) कोलेस्टेरॉल के
(3) यूरिक एसिड के (4) अमोनिया के

(3)

P.T.O.

12. When sucrose is heated with dilute acid, it is dehydrolysed to a mixture of glucose and fructose, this mixture is known as :

- (1) Malt Sugar (2) Invert Sugar
(3) Milk Sugar (4) Cane Sugar

जब सूकोज को तनु अम्ल के साथ गर्म किया जाता है तब यह ग्लूकोज एवं फ्रक्टोज के मिश्रण में जल अपघटित हो जाता है, यह मिश्रण जाना जाता है :

- (1) माल्ट शर्करा के नाम से (2) इन्वर्ट शर्करा के नाम से
(3) दुग्ध शर्करा के नाम से (4) ईख शर्करा के नाम से

13. The enzyme present in Gastric Juice is known as (which is proteolytic) :

- (1) Rennin (2) Trypsin
(3) Pepsin (4) Chymotrypsin

आमाशयिक रस में एक एन्जाइम पाया जाता है (जो प्रोटियोलाइटिक है), जाना जाता है :

- (1) रेनिन के नाम से (2) ट्रिप्सिन के नाम से
(3) पेप्सिन के नाम से (4) काइमोट्रिप्सिन के नाम से

14. The substance present in myelin sheath of the nerves is known as :

- (1) Cerebrosides (2) Ribosomes
(3) Glucose (4) Maltose

नाडी तन्तु के माइलिन शीथ में एक पदार्थ रहता है, जाना जाता है :

- (1) सेरिब्रोसाइड्स के नाम से (2) राइबोसोम्स के नाम से
(3) ग्लूकोज के नाम से (4) माल्टोज के नाम से

15. The development of off-flavours in fats is known as :

- (1) Fermentation (2) Browning reaction
(3) Denaturation (4) Rancidity

वसा में दुर्गन्ध का उत्पन्न होना जाना जाता है :

- (1) किण्वण के नाम से (2) ब्राउनिंग रिएक्शन के नाम से
(3) डिनेच्यूरेशन के नाम से (4) रेन्सिडिटी के नाम से

16. Benedict-Roth apparatus is used for determination of :
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (1) Basal metabolism | (2) Energy value of food |
| (3) Urea in blood | (4) Respiration rate |
- बेनेडिक्ट-रोथ उपकरण का उपयोग किया जाता है :
- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| (1) बेसल मेटाबॉलिज्म के मापने में | (2) फूड की एनर्जी वैल्यू मापने में |
| (3) रक्त में यूरिया मापने में | (4) श्वसन दर को मापने में |
17. The conversion of glucose or glycogen in to lactic acid is known as :
- | | |
|---------------------|--------------------|
| (1) Gluconeogenesis | (2) Glycolysis |
| (3) Glycogenesis | (4) Glycogenolysis |
- ग्लूकोज या ग्लाइकोजन के लैक्टिक एसिड में बदलने को कहा जाता है :
- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| (1) ग्लूकोनियोजिनेसिस | (2) ग्लाइकोलाइसिस |
| (3) ग्लाइकोजिनेसिस | (4) ग्लाइकोजिनोलाइसिस |
18. The plant polysaccharides and lignin which are resistant to hydrolysis by the digestive enzymes in human body are known as :
- | | | | |
|-----------|-------------|------------|----------|
| (1) Fibre | (2) Tannins | (3) Toxins | (4) Gums |
|-----------|-------------|------------|----------|
- पौधों से प्राप्त पॉलिसैकेराइड्स एवं लिगनीन जो कि पाचक एन्जाइम्स द्वारा मनुष्य के शरीर में जल अपघटित नहीं (resistant) होते हैं, उन्हें कहते हैं :
- | | | | |
|----------|-------------|---------------|----------|
| (1) रेशे | (2) टैनिन्स | (3) टॉक्सिन्स | (4) गम्स |
|----------|-------------|---------------|----------|
19. Ragi is a rich source of :
- | | | | |
|-------------|-------------|----------|----------|
| (1) Calcium | (2) Sulphur | (3) Iron | (4) Zinc |
|-------------|-------------|----------|----------|
- रागी अच्छा स्रोत है :
- | | | | |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| (1) कैल्सियम का | (2) सल्फर का | (3) आयरन का | (4) जिंक का |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
20. The main source of Energy during Starvation is :
- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| (1) Protein of the tissue | (2) Glucose of the tissue |
| (3) Fibres of the diet | (4) Adipose tissue fat |
- उपवास की दशा में ऊर्जा का सबसे अच्छा स्रोत है :
- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (1) ऊतकों का प्रोटीन | (2) ऊतकों की शर्करा |
| (3) आहारसूक्ष्म रेशे | (4) एडीपोज टिश्यू की दशा |

(5)

P.T.O.



21. The Head Office of WHO is in :

- (1) Geneva (2) India
(3) Russia (4) China

WHO का मुख्य कार्यालय है :

- (1) जिनेवा में (2) भारत में
(3) रशिया में (4) चाइना में

22. Mechanical diet is used for older person when teeth are lost is also known as :

- (1) Soft diet (2) High fiber diet
(3) Liquid diet (4) Bland diet

यांत्रिक आहार वृद्ध व्यक्तियों के लिये उपयोग करते हैं जब दाँत नहीं रहते हैं, जाना जाता है :

- (1) मुलायम आहार (2) उच्च रेशीय आहार
(3) तरल आहार (4) मसाले रहित आहार

23. Gluten is present in :

- (1) Rice (2) Rajma
(3) Wheat (4) Chana Dal

ग्लूटेन पाया जाता है :

- (1) चावल में (2) राजमा में
(3) गेहूँ में (4) चना दाल में

24. 'CFTRI' is in :

- (1) Delhi (2) Hyderabad
(3) Chandigarh (4) Mysore

'सी एफ टी आर आई' है :

- (1) दिल्ली में (2) हैदराबाद में
(3) चण्डीगढ़ में (4) मैसूर में

25. Which of the following is *not* a TOT project of ICAR ?

- (1) CD (2) KVK (3) LLP (4) ORP

कौन-सा एक भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का टी ओ टी प्रोजेक्ट नहीं है ?

- (1) सी डी (2) के वी के (3) एल एल पी (4) ओ आर पी

(6)

26. Amla is rich source of :
 (1) Vitamin B (2) Vitamin D (3) Vitamin A (4) Vitamin C
 आंवला एक परिपूर्ण स्रोत है :
 (1) विटामिन B का (2) विटामिन D का (3) विटामिन A का (4) विटामिन C का
27. 'Patola' belong to :
 (1) Bengal (2) Haryana
 (3) Maharashtra (4) Gujarat
 'पटोला' है :
 (1) बंगाल से (2) हरियाणा से
 (3) महाराष्ट्र से (4) गुजरात से
28. Kashmiri embroidery is known as :
 (1) Kasheedakari (2) Chicken Work
 (3) Kantha (4) Phulkari
 काश्मीरी कढ़ाई को कहते हैं :
 (1) कशीदाकारी (2) चिकनकारी
 (3) कांथा (4) फुलकारी
29. A fibre which is fire proof, acid resistant and low pliability is :
 (1) Glass (2) Gold
 (3) Asbestos (4) Dacron
 रेशा जो अग्नि प्रतिरोधी, अम्ल प्रतिरोधी एवं कम मुड़ने वाला है, वह है :
 (1) ग्लास (2) गोल्ड
 (3) एस्बेस्टॉस (4) डेक्रॉन
30. The process of placing cocoon in warm water to soften, silk is called ;
 (1) Throwing (2) Reeling
 (3) Weaving (4) Rearing
 जब कोकून को गर्म पानी में मुलायम होने के लिये रखा जाता है, तब सिल्क को कहते हैं :
 (1) थ्रोविंग (2) रीलिंग
 (3) वीविंग (4) रियरिंग

31. Cellulose is a complex compound made up of :

- (1) Carbon, Hydrogen and Oxygen (2) Carbon and Oxygen
(3) Hydrogen and Carbon (4) Hydrogen, Nitrogen and Oxygen

सेल्यूलोज एक जटिल यौगिक है, बनता है :

- (1) कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से (2) कार्बन एवं ऑक्सीजन से
(3) हाइड्रोजन एवं कार्बन से (4) हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन से

32. The fire proof fibres are :

- (1) Silk fibre (2) Wool fibre
(3) Cotton fibre (4) Mineral fibre

अग्निरोधी रेशे हैं :

- (1) सिल्क रेशे (2) ऊनी रेशे
(3) सूती रेशे (4) खनिज रेशे

33. The first step in identification of a fibre is :

- (1) Burning test (2) Visual inspection
(3) Breaking test (4) Microscopic test

रेशे को पहचानने का प्रथम चरण है :

- (1) ज्वलन परीक्षण (2) आँखों द्वारा परीक्षण
(3) ब्रेकिंग परीक्षण (4) सूक्ष्मदर्शी परीक्षण

34. Name the fibre which is insoluble in boiling sodium hydroxide :

- (1) Acrilon (2) Orlon (3) Dacron (4) Nylon

उस रेशे का नाम बताइए जो उबलते सोडियम हाइड्रॉक्साइड में अघुलनशील है :

- (1) एक्रिलोन (2) ऑरलोन (3) डेक्रॉन (4) नाइलॉन

35. The first step of Yarn construction is :

- (1) Spinning (2) Weaving
(3) Washing (4) Cutting

सूत बनाने का प्रथम चरण है :

- (1) स्पनिंग (2) बुनाई
(3) धुलाई (4) कटाई

36. When the number of fibres are twisted together in to a continuous length the Yarn is :

- | | |
|---------------|------------------------|
| (1) Ply Yarn | (2) Novelty Yarn |
| (3) Spot Yarn | (4) Single Strand Yarn |

जब कई रेशों को लगातार लम्बाई में एक साथ लपेटा जाता है, तो वह सूत (यार्न) है :

- | | |
|-----------------|--------------------------|
| (1) प्लाई यार्न | (2) नॉवेल्टी यार्न |
| (3) स्पॉट यार्न | (4) सिंगल स्ट्रैंड यार्न |

37. Which one is *not* a textile fibre ?

- | | |
|-------------|------------|
| (1) Jute | (2) Rayon |
| (3) Leather | (4) Cotton |

कौन-सा रेशा टेक्स्टाइल रेशा नहीं है ?

- | | |
|-----------|-----------|
| (1) जूट | (2) रेयॉन |
| (3) चमड़ा | (4) कपास |

38. A frame which is located in front of the harness is :

- | | |
|-------------|------------|
| (1) Shuttle | (2) Beam |
| (3) Reed | (4) Heddle |

हार्नेस के सामने जो फ्रेम रहती है, वह है :

- | | |
|---------|---------|
| (1) शटल | (2) बीम |
| (3) रीड | (4) हडल |

39. 'Count' is the technical term used to indicate the :

- (1) warp and weft in one square inch of fabric
- (2) warp in one square inch of fabric
- (3) weft in one square inch of fabric
- (4) warp and weft in two square inch of fabric

'काउन्ट' एक टेक्निकल शब्द है जिसका उपयोग करते हैं दर्शाने के लिये कि :

- (1) कपड़े के एक इन्च खाने में कितना ताना और बाना है
- (2) कपड़े के एक इन्च खाने में कितना ताना है
- (3) कपड़े के एक इन्च खाने में कितना बाना है
- (4) कपड़े के दो इन्च खाने में कितना ताना और बाना है

40. The weave look like the process of darning :

- (1) Rib weave (2) Plain weave
(3) Basket weave (4) Twill weave

बुनाई जो रफू विधि की तरह दिखती है, वह है :

- (1) रिब बुनाई (2) सादी बुनाई
(3) बॉस्केट बुनाई (4) दिवल बुनाई

41. In the Panchayati Raj System, village Panchayat is :

- (1) Lowest unit (2) Upper unit
(3) Middle unit (4) Highest unit

पंचायती राज व्यवस्था में, ग्राम पंचायत है :

- (1) नीचे की इकाई (2) ऊपर की इकाई
(3) मध्य की इकाई (4) उच्चतम इकाई

42. Stiffening agent used on Silk fabric is :

- (1) Maida (2) Sago
(3) Gum arasic (4) Arraroth

रेशम कपड़ों को कड़ा करने वाला साधन है :

- (1) मैदा (2) साबूदाना
(3) गम अरासिक (4) अरारोट

43. Sanforizing word denotes that :

- (1) Fabric will shrink after washing (2) Fabric will not shrink after washing
(3) Fabric will loose after washing (4) Fabric will not loose after washing

सैन्फोराइजिंग शब्द दर्शाता है कि :

- (1) वस्त्र धुलाई के बाद सिकुड़ेगा (2) वस्त्र धुलाई के बाद नहीं सिकुड़ेगा
(3) वस्त्र धुलाई के बाद ढीला होगा (4) वस्त्र धुलाई के बाद ढीला नहीं होगा

44. Grease solvents are used for washing of :

- (1) Silk (2) Cotton (3) Jute (4) Nylon

कौनसे घोलक धुलाई में उपयोग आते हैं :

- (1) रेशम के (2) सूत के (3) जूट के (4) नाइलॉन के

45. Attributes of planning includes :

- | | |
|-----------------|-----------------------|
| (1) Precision | (2) Privacy and unity |
| (3) Flexibility | (4) All of the above |

योजना का लक्षण है :

- | | |
|----------------|-----------------------|
| (1) परिशुद्धता | (2) गोपनीयता एवं एकता |
| (3) लचीलापन | (4) उपरोक्त सभी |

46. The hardness and softness of the soaps depends on two factors, they are :

- (1) Fat & alkalies and process of making
- (2) Fat used and process of making
- (3) Alkalies used and process of making
- (4) Fat used and alkalies used

साबुन की कठोरता एवं मृदुता दो कारकों पर निर्भर है, वे हैं :

- (1) वसा एवं क्षार तथा बनाने का तरीका
- (2) प्रयुक्त वसा एवं बनाने का तरीका
- (3) प्रयुक्त क्षार एवं बनाने का तरीका
- (4) प्रयुक्त वसा एवं प्रयुक्त क्षार

47. Butter is an example of :

- | | |
|------------------|---------------------|
| (1) Animal stain | (2) Vegetable stain |
| (3) Grease stain | (4) Grass stain |

मक्खन एक उदाहरण है :

- | | |
|----------------------|--------------------------|
| (1) प्राणीज धब्बे का | (2) सब्जियों के धब्बे का |
| (3) ग्रीस धब्बे का | (4) घास के धब्बे का |

48. The protein present in wool is called :

- | | |
|--------------|---------------|
| (1) Keratin | (2) Albumin |
| (3) Globulin | (4) Cartilage |

ऊन में पाया जाने वाला प्रोटीन कहलाता है :

- | | |
|-----------------|----------------|
| (1) किरेटिन | (2) एल्ब्यूमिन |
| (3) ग्लोब्यूलिन | (4) कार्टिलेज |

49. The embroidered rugs are called :

- (1) Kantha (2) Namda
(3) Patola (4) Blanket

कढ़ाई की हुई दरी को कहते हैं :

- (1) कान्था (2) नमदा
(3) पटोला (4) ब्लैन्केट

50. The process of removing colouring matter from fabric is known as :

- (1) Washing (2) Staining
(3) Bleaching (4) Dyeing

विधि, जिसमें रंग प्रदान करने वाले पदार्थ को कपड़े से दूर करते हैं, जानी जाती है :

- (1) धुलाई के नाम से (2) स्टेनिंग के नाम से
(3) ब्लोचिंग के नाम से (4) डाइंग के नाम से

51. Home management is a process including the steps :

- (1) Planning, Controlling and Evaluation
(2) Planning and Evaluation
(3) Controlling and Planning
(4) Evaluation and Saving

गृह-प्रबन्ध एक प्रक्रिया है, जिसके अन्तर्गत चरण हैं :

- (1) योजना बनाना, नियन्त्रण एवं मूल्यांकन
(2) योजना बनाना एवं मूल्यांकन
(3) नियन्त्रण एवं योजना बनाना
(4) मूल्यांकन एवं बचत

52. Helping of orphans is a :

- (1) Political value (2) Economic value
(3) Religious value (4) Social value

अनाथों की मदद करना है :

- (1) राजनैतिक मूल्य (2) अर्थशास्त्रीय मूल्य
(3) धार्मिक मूल्य (4) सामाजिक मूल्य

53. Time and money are examples of :

- (1) Non-human Resources
- (2) Human Resources
- (3) Non-human and Human Resources
- (4) Human Resources and sometimes Non-human Resources

समय एवं धन उदाहरण हैं :

- (1) अमानवीय साधनों के
- (2) मानवीय साधनों के
- (3) अमानवीय एवं मानवीय साधनों के
- (4) मानवीय तथा कभी-कभी अमानवीय साधनों के

54. The curve which shows the distribution of daily work done by family is :

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| (1) Work curve | (2) Planning curve |
| (3) Purchasing curve | (4) Expenditure curve |

परिवार द्वारा प्रतिदिन किये गये कार्य के वितरण को दर्शाने वाले वक्र को :

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| (1) कार्य वक्र कहते हैं | (2) योजना वक्र कहते हैं |
| (3) खरीदारी का वक्र कहते हैं | (4) व्यय का वक्र कहते हैं |

55. Selection of the best alternative among all possible alternatives is known as :

- (1) Planning
- (2) Controlling
- (3) Organizing
- (4) Decision-making

सभी संभावित विकल्पों में से सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन करना :

- (1) आयोजन कहलाता है
- (2) नियन्त्रण कहलाता है
- (3) तैयार करना कहलाता है
- (4) निर्णय लेना कहलाता है

56. Who said, "Values are those deep-seated beliefs and desires that give direction to our life" ?

- (1) Gross and Crandall (2) Nickell and Dorsey
(3) Good Year and Klohr (4) Louis R. Raths

किसने कहा है - "मूल्य वह गहरी बैठी धारणाएँ एवं इच्छाएँ हैं, जो हमारे जीवन को दिशाएँ देती हैं" ?

- (1) ग्रॉस एवं क्रैण्डल ने (2) निकेल एवं डॉर्सी ने
(3) गुड ईयर एवं कोहर ने (4) लुईस आर० रथ ने

57. Steps in controlling include :

- (1) Incentive and Checking
(2) Checking and Adjustment
(3) Incentive and Adjustment
(4) Incentive, Checking and Adjustment

नियन्त्रण के चरणों में सम्मिलित है :

- (1) पहल करना एवं जाँच करना
(2) जाँच करना एवं समायोजन करना
(3) पहल करना एवं समायोजन करना
(4) पहल करना, जाँच करना एवं समायोजन करना

58. 'Home Furnishing' is a book, written by :

- (1) Anna Hong Rutt
(2) Ibid
(3) Friedman
(4) Wilson

'होम फर्निशिंग' नामक किताब लिखी गयी :

- (1) अन्ना हांग स्टूट द्वारा
(2) आइविड द्वारा
(3) फ्राइडमन द्वारा
(4) विल्सन द्वारा

59. Secondary colours made by mixing primary colours, they are :

- (1) Orange, green and black (2) Orange, green and purple
(3) Green, black and purple (4) Orange, blue and purple

द्वितीयक रंग प्रारम्भिक रंगों को मिलाकर बनते हैं, वे हैं :

- (1) नारंगी, हरा एवं काला (2) नारंगी, हरा एवं जामुनी
(3) हरा, काला एवं जामुनी (4) नारंगी, नीला एवं जामुनी

60. "Good design is not personal but it is intended to be useful to people everywhere in the present and in the future." Who's statement is this ?

- (1) Anna Hong Rutt (2) Friedman
(3) Pramila Mehta (4) Bela Bhargava

"अच्छा डिजाइन व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि इसका अभिप्राय लोगों के लिये सर्वत्र वर्तमान एवं भविष्य में उपयोगी होना है।" यह कथन किसका है ?

- (1) अन्ना हांग रट्ट का (2) फ्राइडमन का
(3) प्रमिला मेहता का (4) बेला भार्गव का

61. Which of the factor(s) effect use of resources ?

- (1) Motivation (2) Capacity
(3) Philosophy (4) Life cycle and family factors

साधनों के उपयोग में कौन-सा कारक (कौन-से कारक) प्रभाव डालता है ?

- (1) प्रेरणा (2) ग्राह्यता
(3) फिलॉसोफी (4) जीवन चक्र एवं पारिवारिक कारक

62. The payment paid to the owner for the use of house, equipment, vehicle, land etc. is :

- (1) Profit (2) Salary
(3) Interest (4) Rent

मकान, उपकरण, गाड़ी, जमीन आदि के उपयोग के लिये जब मालिक को पैसा अदा किया जाता है, वह है :

- (1) लाभ (2) वेतन
(3) ब्याज (4) भाड़ा

63. When decisions are taken on urgent basis known as :

- (1) Personal and group decisions (2) Routine decisions
(3) Emergency decisions, (4) Programmed decisions

जब निर्णयों को लेने का आधार तुरन्त होता है, तो उसे कहते हैं :

- (1) व्यक्तिगत एवं समूह निर्णय (2) दैनिक निर्णय
(3) आकस्मिक निर्णय (4) आयोजनात्मक निर्णय

64. For improve the future time plan and gaining satisfaction for evaluation of time plan known as :

- (1) Ganth chart for evaluation of time
(2) Life cycle chart for evaluation of time
(3) Cycle graph for evaluation of time
(4) Decision chart for evaluation of time

भविष्य की समय योजना को सुधारने के लिए एवं समय-योजना के मूल्यांकन के लिए संतुष्टि प्राप्त करना, कहलाता है :

- (1) गन्थ चार्ट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टाइम
(2) लाइफ साइकिल चार्ट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टाइम
(3) साइकिल ग्राफ फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टाइम
(4) डिसेजन चार्ट फॉर इवैल्यूएशन ऑफ टाइम

65. Unsuitable work place is a factor for fatigue which is a kind of :

- (1) Internal factor (2) External factor
(3) Physiological factor (4) Emotional factor

थकान के लिये उचित कार्य-स्थल का न होना एक कारक है, जो एक प्रकार है :

- (1) आन्तरिक कारक का (2) बाह्य कारक का
(3) शारीरिक कारक का (4) संवेगात्मक कारक का

66. Mundel's proposed the classes of simplification of work in the year :

मुण्डेल ने कार्य सरलीकरण के वर्गों को किस सन् में बताया है ?

- (1) 1957 (2) 1958 (3) 1959 (4) 1960

67. Marginal utility calculation formula is :

- (1) Marginal utility = Increase in total utility/Increase in unit consumption
- (2) Marginal utility = Decrease in total utility/Increase in unit consumption
- (3) Marginal utility = Increase in total utility/Decrease in unit consumption
- (4) Marginal utility = Decrease in total utility/Decrease in unit consumption

मार्जिनल यूटिलिटी कैल्क्यूलेशन फॉर्मूला है :

- (1) मार्जिनल यूटिलिटी = इन्क्रीज इन टोटल यूटिलिटी/इन्क्रीज इन यूनिट कन्जम्पशन
- (2) मार्जिनल यूटिलिटी = डिक्लीज इन टोटल यूटिलिटी/इन्क्रीज इन यूनिट कन्जम्पशन
- (3) मार्जिनल यूटिलिटी = इन्क्रीज इन टोटल यूटिलिटी/डिक्लीज इन यूनिट कन्जम्पशन
- (4) मार्जिनल यूटिलिटी = डिक्लीज इन टोटल यूटिलिटी/डिक्लीज इन यूनिट कन्जम्पशन

68. "A budget is a plan of action to achieve stated objectives based on a pre-determined series of related assumptions." Who stated this ?

- (1) Prof. J. L. Brown and Howard
- (2) Prof. J. K. Fremgen
- (3) Prof. Keller and Ferrara
- (4) Prof. Bartizal

"बजट एक क्रियात्मक योजना है जो एक निश्चित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिये बनाते हैं जो कि पूर्व-नियोजित प्रदत्त कल्याणों की शृंखला पर आधारित है।" यह किसने प्रस्तावित किया है ?

- (1) प्रो० जे० एल० ब्राउन एवं हॉवर्ड
- (2) प्रो० जे० के० फ्रेमजेन
- (3) प्रो० केलर एवं फेररा
- (4) प्रो० बर्टिजल

69. 'Ekebana' is a flower arrangement style of :

- (1) Japan
- (2) India
- (3) America
- (4) Europe

'इकेबाना' एक पुष्पसज्जा का प्रकार है :

- (1) जापान का
- (2) भारत का
- (3) अमेरिका का
- (4) यूरोप का

70. When the marginal utility is in positive form, then total utility goes on :

- (1) its highest point
- (2) decline
- (3) increasing
- (4) zero

जब सीमान्त लाभ धनात्मक दिशा में होता है, तब सम्पूर्ण लाभ :

- (1) इसके उच्च बिन्दु पर पहुँचता है
- (2) नीचे को गिरता है
- (3) बढ़ता है
- (4) शून्य होता है



71. Who stated that "A market is that mechanism by which buyers and sellers are brought together it is not necessary a fixed place" ?

- (1) Prof. J. C. Eduard (2) Prof. Chapman
(3) Prof. Benham (4) Prof. J. K. Mehta

यह किसका कथन है कि "बाजार वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा खरीदारों एवं विक्रेताओं को एकत्र किया जाता है, इसके लिये आवश्यक नहीं कि एक निश्चित जगह हो" ?

- (1) प्रो० जे० सी० डूअर्ड (2) प्रो० चेपमेन
(3) प्रो० बेन्हम (4) प्रो० जे० के० मेहता

72. A person awaiting of any goods and or services is known as a :

- (1) Banker (2) Leader
(3) Consumer (4) Seller

एक व्यक्ति जो किसी सामान और या सेवाओं की प्रतीक्षा करता है, उसे कहते हैं :

- (1) बैंकर (2) लीडर
(3) उपभोक्ता (4) विक्रेता

73. Furniture arrangement is based on two basic elements, they are :

- (1) Design and Price (2) Design and Market
(3) Design and Colour (4) Design and Function

फर्नीचर व्यवस्था दो आधारीय तत्वों पर निर्धारित है, वे हैं :

- (1) डिजाइन एवं मूल्य (2) डिजाइन एवं बाजार
(3) डिजाइन एवं रंग (4) डिजाइन एवं कार्य

74. The map of house interior is known as :

- (1) Floor plan (2) Elevation
(3) Service plan (4) Site plan

मकान के अन्दरूनी नक्शे को जाना जाता है :

- (1) फ्लोर प्लान के नाम से (2) इलीवेशन के नाम से
(3) सर्विस प्लान के नाम से (4) साइट प्लान के नाम से

75. Development is a continuous process from the time of conception to :
 (1) Puberty (2) Adolescent (3) Old age (4) Death
 विकास एक सतत प्रक्रिया है, गर्भाधान के समय से लेकर :
 (1) यौवनारंभ तक (2) युवावस्था तक (3) वृद्धावस्था तक (4) मृत्यु तक
76. Secondary socialization has its beginning at :
 (1) Later stage of childhood (2) Adolescence
 (3) Maturity (4) Infancy
 द्वितीयक सामाजीकरण की शुरुआत होती है :
 (1) बाल्यावस्था के पश्चात् दशा में (2) युवावस्था में
 (3) परिपक्वावस्था में (4) शिशुकाल में
77. Language and pronunciation are acquired by the child through :
 (1) Suggestion (2) Imitation
 (3) Listening (4) Teaching
 भाषा एवं उच्चारण बच्चा ग्रहण करता है :
 (1) उपदेश देने से (2) अनुकरण करने से
 (3) सुनने से (4) सिखाने से
78. Autism is a :
 (1) Developmental disorder (2) Social disorder
 (3) Emotional disorder (4) Communicable disorder
 ऑटिज्म है, एक :
 (1) विकासात्मक व्याधि (2) सामाजिक व्याधि
 (3) संवेगात्मक व्याधि (4) एक-दूसरे से होने वाली व्याधि
79. A child with learning disabilities is likely to have difficulties with :
 (1) Writing (2) Reading
 (3) English and Hindi writing (4) Maths and Reading
 एक बच्चा जिसको सीखने में अयोग्यताएँ हैं, उसे परेशानियों होती हैं :
 (1) लिखना सीखने में (2) पढ़ने में
 (3) अंग्रेजी एवं हिन्दी लिखने में (4) गणित एवं पढ़ने में

80. 16-PF is used to measure which of the following ?

- (1) Creativity (2) Interest (3) Personality (4) Stress

16-पी एफ का प्रयोग किया जाता है, निम्न में से किसके मापन के लिये ?

- (1) सृजनात्मकता (2) अभिरुचि (3) व्यक्तित्व (4) तनाव

81. "Socialization is the process by which the child acquires a cultural content along with selfhood and personality." Stated by :

- (1) Green (2) Horter and Hunt
(3) Lundberg (4) Kimbell Young

"सामाजीकरण एक प्रक्रिया है, जिसके द्वारा बच्चा सांस्कृतिक परिमाण, व्यक्तिगत एवं व्यक्तित्व के साथ ग्रहण करता है।" कहा है :

- (1) ग्रीन ने (2) हॉर्टर एवं हंट ने
(3) लुण्डबर्ग ने (4) किमबेल यंग ने

82. The term exceptional children is applied to children who when compared to normal children show difference in :

- (1) Mental and Physical factors
(2) Emotional and Mental factors
(3) Physical and Social factors
(4) Mental, Physical, Emotional and Social factors

शब्द प्रतिभाशाली बालक उन बच्चों के लिये उपयोग किया जाता है जब उनकी सामान्य बच्चों से तुलना करने पर अन्तर दिखता है :

- (1) उनके मानसिक एवं शारीरिक कारकों में
(2) उनके संवेगात्मक एवं मानसिक कारकों में
(3) उनके शारीरिक एवं सामाजिक कारकों में
(4) उनके मानसिक, शारीरिक, संवेगात्मक एवं सामाजिक कारकों में

83. Child development is a :

- (1) Normative science (2) Positive science
(3) Informative science (4) Discovery science

बाल विकास एक :

- (1) नियामक विज्ञान है (2) विधायक विज्ञान है
(3) सूचनात्मक विज्ञान है (4) शोध विज्ञान है

84. Imagination is one of the most important skills a child develops during the :

- (1) Late childhood (2) Early childhood
(3) Infancy (4) Adulthood

कल्पना करना एक बहुत महत्त्वपूर्ण योग्यता है, जो बच्चा विकसित करता है :

- (1) उत्तर-बाल्यावस्था में (2) पूर्व-बाल्यावस्था में
(3) शिशु अवस्था में (4) प्रौढ़ावस्था में

85. The babyhood is the period from the end of the period of infancy to :

- (1) 2 weeks after birth to end of the 2 years
(2) 3 weeks after birth to end of the 3 years
(3) 4 weeks after birth to end of the 4 years
(4) 5 weeks after birth to end of the 5 years

बाल्यावस्था समय है - शिशु अवस्था के समाप्त होने से :

- (1) दो सप्ताह जन्म के पश्चात् से दो वर्ष समाप्त होने तक
(2) तीन सप्ताह जन्म के पश्चात् से तीन वर्ष समाप्त होने तक
(3) चार सप्ताह जन्म के पश्चात् से चार वर्ष समाप्त होने तक
(4) पाँच सप्ताह जन्म के पश्चात् से पाँच वर्ष समाप्त होने तक

86. Under which age the child is known as 'juvenile delinquents' :

- (1) 16 years (2) 18 years
(3) 19 years (4) 20 years

किस आयु के अन्तर्गत एक बच्चा 'बाल अपराधी' कहा जाता है ?

- (1) 16 वर्ष (2) 18 वर्ष
(3) 19 वर्ष (4) 20 वर्ष

87. A period of pregnancy is :

- (1) 280 days (2) 290 days
(3) 270 days (4) 260 days

गर्भावस्था का समय होता है :

- (1) 280 दिन (2) 290 दिन
(3) 270 दिन (4) 260 दिन

88. The first mother's milk after the birth of the baby which impart immunity to the baby is called :

- (1) Serum (2) Colostrum
(3) Cholesterol (4) Oxytocin

शिशु के जन्म के पश्चात् माँ का पहला दूध जो शिशु को प्रतिरक्षा देता है, वह है :

- (1) सीरम (2) कोलोस्ट्रम
(3) कोलेस्टेरॉल (4) ऑक्सीटोसिन

89. The founder of Kindergarten System was :

- (1) Froebel (2) Pestalozzi
(3) John Dewey (4) Maria Montessori

किन्डरगार्टन व्यवस्था को किसने स्थापित किया ?

- (1) फ्रोबेल ने (2) पेस्टालॉजी ने
(3) जॉन डीवी ने (4) मारिया मॉन्टेसरी ने

90. New born infant normally suffer from :

- (1) Infection of the intestine
(2) Sexually transmitted disease by mother
(3) Neo-natal Jaundice
(4) Hyperactivity

नवजात शिशु आमतौर पर किससे पीड़ित रहते हैं ?

- (1) आँतों के संक्रमण से
(2) माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से
(3) नवजात पीलिया से
(4) अतिसक्रियता से

91. The basic unit of Heredity is :

- (1) Chromosomes (2) Genes
(3) DNA (4) Zygote

वंशानुक्रम की मूल इकाई है :

- (1) क्रोमोसोम (2) जीन्स
(3) डी एन ए (4) जाइगोट

92. The concept of development task was given by :
 (1) E. Hurlock (2) Gesell (3) Piaget (4) Havighurst
 विकासात्मक कार्य का प्रत्यय दिया था :
 (1) ई० हरलॉक ने (2) गेजेल ने (3) पियाजे ने (4) हेविगहर्स्ट ने
93. When is BCG vaccination given to cure T. B. ?
 (1) 7 days (2) 1 month
 (3) 4 months (4) 5 months
 तपेदिक (T.B.) से बचने के लिये BCG का टीका कब दिया जाता है ?
 (1) 7 दिनों में (2) 1 महीना में
 (3) 4 महीने में (4) 5 महीने में
94. Which among the following is a pre-speech form of communication ?
 (1) Crying (2) Cooining
 (3) Bebbling (4) Looking
 निम्न में से कौन-सा पूर्व-भाषा संचार का प्रकार है ?
 (1) रोना (2) कूड़ंग
 (3) बब्लिंग (4) देखना
95. The organ to which the fetus is attached by means of the ambical cord is known as :
 (1) Placenta (2) Epithelium
 (3) Chalaza (4) Connective tissue
 गर्भनाल के द्वारा गर्भ जिस अंग से जुड़ा रहता है, वह जाना जाता है :
 (1) जरायु के नाम से (2) एपिथीलियम के नाम से
 (3) चैलेझा के नाम से (4) संयोजी ऊतक के नाम से
96. The main basis for selection of communication channels is :
 (1) Innovation (2) Identification
 (3) Purpose of communication (4) Nature of message
 संचार के माध्यमों के चयन का मुख्य आधार है :
 (1) नवाचार पर (2) परीक्षण पर
 (3) संचार के उद्देश्य पर (4) संदेश की प्रकृति पर

97. The date for starting of Community Development Programme is :

- (1) 15th October, 1958 (2) 10th October, 1958
(3) 6th October, 1958 (4) 2nd October, 1958

सामुदायिक विकास कार्यक्रम शुरू होने की तारीख है :

- (1) 15 अक्टूबर, 1958 (2) 10 अक्टूबर, 1958
(3) 6 अक्टूबर, 1958 (4) 2 अक्टूबर, 1958

98. Navodaya Vidyalaya are started for :

- (1) Rural Talented Students (2) Rural SC Students
(3) Rural Handycapped Students (4) Semi-Urban Students

नवोदय विद्यालय शुरू हुए थे :

- (1) ग्रामीण प्रबुद्ध छात्रों के लिये (2) ग्रामीण एस सी छात्रों के लिये
(3) ग्रामीण विकलांग छात्रों के लिये (4) अर्ध-शहरी छात्रों के लिये

99. The main principle of Extension Education is :

- (1) Learning by seeing (2) Learning by doing
(3) Learning by reading (4) Learning by hearing

प्रसार शिक्षा का मुख्य सिद्धान्त है :

- (1) देखकर सीखना (2) करके सीखना
(3) पढ़कर सीखना (4) सुनकर सीखना

100. Which one of the following is a largest government programme for family and child welfare ?

- (1) School meal programme (2) ICDS
(3) ANP (4) ICMR

निम्नलिखित में से कौन-सा सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम, परिवार एवं बच्चों के कल्याण के लिये है ?

- (1) स्कूल मील प्रोग्राम (2) आई सी डी एस
(3) ए एन पी (4) आई सी एम आर

101. The ways in which messages can be carried or delivered is known as :

- (1) Channels (2) Audience
(3) Communication (4) Sender

तरीका, जिससे संदेश ले जाये जाते हैं या पहुँचाये जाते हैं, वह जाना जाता है :

- (1) चैनल के नाम से (2) श्रोता के नाम से
(3) वार्ता के नाम से (4) वाहक के नाम से

102. Central Board of Education was established in :

- (1) 1911 (2) 1915 (3) 1921 (4) 1930

सेन्ट्रल बोर्ड ऑफ एजुकेशन की स्थापना हुई थी :

- (1) 1911 में (2) 1915 में (3) 1921 में (4) 1930 में

103. Replica are the best example of :

- (1) 3 Dimentional Visual Aids (2) 2 Dimentional Visual Aids
(3) 4 Dimentional Visual Aids (4) Plane Mirror Image

प्रतिकृतियाँ उदाहरण हैं :

- (1) 3 डाइमेंशनल विजुअल एड्स का (2) 2 डाइमेंशनल विजुअल एड्स का
(3) 4 डाइमेंशनल विजुअल एड्स का (4) प्लेन मिरर इमेज का

104. The correct size of flash card is :

- (1) 40 cm to 70 cm (2) 50 cm to 70 cm
(3) 40 cm to 80 cm (4) 60 cm to 70 cm

फ्लेश कार्ड का सही आकार होता है :

- (1) 40 सेमी से 70 सेमी (2) 50 सेमी से 70 सेमी
(3) 40 सेमी से 80 सेमी (4) 60 सेमी से 70 सेमी

105. Communication is a primary tool for effective :

- (1) Speaking (2) Behaviour change
(3) Impact (4) Writing

संचार एक आरम्भिक साधन है, प्रभावी :

- (1) बोलने के लिये (2) व्यवहार परिवर्तन के लिये
(3) प्रभावशाली होने के लिये (4) लिखने के लिये

106. Village markets, Bazaars and Melas are instances of :

- (1) Formal Group Communication (2) Informal Group Communication
(3) Focused (4) Unfocused

गाँव के मार्केट, बाज़ार और मेले, अच्छे उदाहरण हैं :

- (1) औपचारिक समूह संचार के (2) अनौपचारिक समूह संचार के
(3) केन्द्रित के (4) अकेन्द्रित के

107. "Workshop" means :

- (1) Personal Contact Method (2) Group Contact Method
(3) Mass Contact Method (4) Lecture Method

"कार्यशाला" का तात्पर्य है :

- (1) व्यक्तिगत सम्पर्क विधि (2) समूह सम्पर्क विधि
(3) जन सम्पर्क विधि (4) व्याख्यान विधि

108. The main function of Education is :

- (1) Political development (2) Industrial development
(3) Psychological development (4) Human resource development

शिक्षा का मुख्य कार्य है :

- (1) राजनीतिक विकास (2) औद्योगिक विकास
(3) मानसिक विकास (4) मानव संसाधन विकास

109. According to Aristotle Communication has :

- (1) 5 ingredients (2) 4 ingredients
(3) 3 ingredients (4) 2 ingredients

अरस्तू के अनुसार संचार के :

- (1) 5 घटक हैं (2) 4 घटक हैं
(3) 3 घटक हैं (4) 2 घटक हैं

110. A systematic display of models, charts, photographs etc. is known as :

- (1) Exhibition (2) Demonstration
(3) Lecture (4) Observation

एक तरीके से मॉडल, चार्ट, फोटोग्राफ इत्यादि को दर्शाना जाना जाता है :

- (1) प्रदर्शनी के नाम से (2) डिमान्स्ट्रेशन के नाम से
(3) व्याख्यान के नाम से (4) आब्जर्वेशन के नाम से

111. EMMS stand for :

- (1) Electric Mail Message System
(2) Electro Magnetic Message System
(3) Electronic Messenger Management System
(4) Electronic Mail Message System

ई० एम० एम० एस० का तात्पर्य है :

- (1) इलेक्ट्रिक मेल मैसेज सिस्टम
(2) इलेक्ट्रो मैग्नेटिक मैसेज सिस्टम
(3) इलेक्ट्रॉनिक मेसेन्जर मैनेजमेन्ट सिस्टम
(4) इलेक्ट्रॉनिक मेल मैसेज सिस्टम

112. Which State in India spending the largest amount on Primary Education ?

- (1) Bihar (2) Gujarat (3) Madhya Pradesh (4) Kerala

भारतवर्ष का कौन-सा राज्य प्राथमिक शिक्षा पर अधिक खर्च करता है ?

- (1) बिहार (2) गुजरात (3) मध्य प्रदेश (4) केरल

113. 'Theosophical Society' was started in America in the year :

- (1) 1875 (2) 1876 (3) 1877 (4) 1878

'थियोसोफिकल सोसाइटी' अमेरिका में शुरू हुई थी, सन :

- (1) 1875 में (2) 1876 में (3) 1877 में (4) 1878 में

114. Who says this "All educational and action programmes in agriculture are communication" ?

- (1) Leagans (2) Coleman (3) Stevens (4) Howland

यह किसने कहा है - "सारे शैक्षणिक एवं एक्शन प्रोग्राम जो एग्रीकल्चर में होते हैं, सब संचार हैं ?

- (1) लीगेन्स (2) कोलमन (3) स्टीवन्स (4) हॉलेण्ड

115. The 'Sarvodaya ideology' is the outcome of way of thinking of :

- (1) Gandhiji (2) Nehruji
(3) Netaji (4) Indira Gandhi

'सर्वोदय विचारधारा' एक निष्कर्ष है :

- (1) गाँधी जी के सोच के तरीके का (2) नेहरू जी के सोच के तरीके का
(3) नेताजी के सोच के तरीके का (4) इन्दिरा गाँधी के सोच के तरीके का

116. DW CRA programme was started in the year :

DW CRA कार्यक्रम किस वर्ष में शुरू हुआ था ?

- (1) 1981 (2) 1979 (3) 1982 (4) 1980

117. In ABC's of journalism 'A' stands for :

- (1) Accuracy (2) Awakening (3) Attraction (4) Access

पत्रकारिता के ए बी सी में 'ए' से तात्पर्य है :

- (1) सटीक (2) जागरूकता (3) आकर्षण (4) पहुँच

118. Training and visit system of Extension was first introduced in :

- (1) Turkey (2) India (3) Israel (4) Iraq

प्रसार में ट्रेनिंग और विजिट सिस्टम सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुआ था ?

- (1) तुर्की (2) भारत (3) इजराइल (4) ईराक

119. The terms intrapreneur was coined in the country :

- (1) Germany (2) America (3) India (4) France

इन्ट्राप्रीन्यूर शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई थी ?

- (1) जर्मनी (2) अमेरिका (3) भारत (4) फ्रान्स

120. Among the motion picture projectors, which size projector is most suitable for classroom teaching ?

मोशन पिक्चर प्रोजेक्टर में किस साइज का प्रोजेक्टर कक्षा में पढ़ाये जाने के लिये उपयुक्त है ?

- (1) 8 mm (2) 16 mm (3) 24 mm (4) 35 mm

FOR ROUGH WORK / रफ कार्य के लिए

अभ्यर्थियों के लिए निर्देश

(इस पुस्तिका के प्रथम आवरण-पृष्ठ पर तथा ओ०एम०आर० उत्तर-पत्र के दोनों पृष्ठों पर केवल नीली/काली बाल-प्वाइंट पेन से ही लिखें)

1. प्रश्न पुस्तिका मिलने के 30 मिनट के अन्दर ही देख लें कि प्रश्नपत्र में सभी पृष्ठ मौजूद हैं और कोई प्रश्न छूटा नहीं है। पुस्तिका दोषयुक्त पाये जाने पर इसकी सूचना तत्काल कक्ष निरीक्षक को देकर सम्पूर्ण प्रश्नपत्र की दूसरी पुस्तिका प्राप्त कर लें।
2. परीक्षा भवन में लिफाफा रहित प्रवेश-पत्र के अतिरिक्त, लिखा या सादा कोई भी खुला कागज साथ में न लायें।
3. उत्तर-पत्र अलग से दिया गया है। इसे न तो मोड़ें और न ही विकृत करें। दूसरा उत्तर-पत्र नहीं दिया जायेगा। केवल उत्तर-पत्र का ही मूल्यांकन किया जायेगा।
4. अपना अनुक्रमांक तथा उत्तर-पत्र का क्रमांक प्रथम आवरण-पृष्ठ पर पेन से निर्धारित स्थान पर लिखें।
5. उत्तर-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर पेन से अपना अनुक्रमांक निर्धारित स्थान पर लिखें तथा नीचे दिये वृत्तों को गाढ़ा कर दें। जहाँ-जहाँ आवश्यक हो वहाँ प्रश्न-पुस्तिका का क्रमांक तथा सेट का नम्बर उचित स्थानों पर लिखें।
6. ओ० एम० आर० पत्र पर अनुक्रमांक संख्या, प्रश्न-पुस्तिका संख्या व सेट संख्या (यदि कोई हो) तथा प्रश्न-पुस्तिका पर अनुक्रमांक संख्या और ओ० एम० आर० पत्र संख्या की प्रविष्टियों में उपरिलेखन की अनुमति नहीं है।
7. उपर्युक्त प्रविष्टियों में कोई भी परिवर्तन कक्ष निरीक्षक द्वारा प्रमाणित होना चाहिये अन्यथा यह एक अनुचित साधन का प्रयोग माना जायेगा।
8. प्रश्न-पुस्तिका में प्रत्येक प्रश्न के चार वैकल्पिक उत्तर दिये गये हैं। प्रत्येक प्रश्न के वैकल्पिक उत्तर के लिये आपको उत्तर-पत्र की सम्बन्धित पंक्ति के सामने दिये गये वृत्त को उत्तर-पत्र के प्रथम पृष्ठ पर दिये गये निर्देशों के अनुसार बाल-प्वाइंट पेन से गाढ़ा करना है।
9. प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के लिये केवल एक ही वृत्त को गाढ़ा करें। एक से अधिक वृत्तों को गाढ़ा करने पर अथवा एक वृत्त को अपूर्ण भरने पर वह उत्तर गलत माना जायेगा।
10. ध्यान दें कि एक बार स्याही द्वारा अंकित उत्तर बदला नहीं जा सकता है। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहते हैं, तो सम्बन्धित पंक्ति के सामने दिये गये सभी वृत्तों को खाली छोड़ दें। ऐसे प्रश्नों पर शून्य अंक दिये जायेंगे।
11. रफ कार्य के लिये इस पुस्तिका के मुखपृष्ठ के अंदर वाला पृष्ठ तथा अंतिम खाली पृष्ठ का प्रयोग करें।
12. परीक्षा के उपरान्त केवल ओ० एम० आर० उत्तर-पत्र ही परीक्षा भवन में जमा करें।
13. परीक्षा समाप्त होने से पहले परीक्षा भवन से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी।
14. यदि कोई अभ्यर्थी परीक्षा में अनुचित साधनों का प्रयोग करता है, तो वह विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित दंड का/की भागी होगा/होगी।

SEAL